

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजा. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85]

भोपाल, सोमवार दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों का आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला उमरिया में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला उमरिया

सरल क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पद एवं कार्यालय का नाम (3)	सेवा/संवर्ग का नाम (4)
1	डॉ. एम. यू. खान	प्राचार्य, शा. महाविद्यालय, उमरिया	प्रथम श्रेणी
2	श्री एच.पी. लारिया	परियोजना प्रशासक आदिवासी विकास	प्रथम श्रेणी
3	श्री आर. एल. पुरी	अधीक्षक, भू-अभिलेख	द्वितीय श्रेणी
4	श्री बी.आर. जम्बोलकर	अधीक्षक, भू-अभिलेख	द्वितीय श्रेणी
5	श्री एच. एल. महोबिया	अधीक्षक, भू-अभिलेख	द्वितीय श्रेणी

(1)	(2)	(3)	(4)
6	श्री एस. के. नामदेव	परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना, पाली	द्वितीय श्रेणी
7	श्री के.पी. तिवारी	प्र. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	द्वितीय श्रेणी
8	श्री माधू सिंह	जिला आबकारी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी
9	श्री जी.डी. बरबड़े	उप वनमण्डल अधिकारी	द्वितीय श्रेणी
10	श्री मान सिंह मेमार	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक
11	श्री अनिल खरे	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत	द्वितीय श्रेणी
12	श्री एच.एस. धुर्वे	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	प्रथम श्रेणी
13	श्री आर. के. पाण्डेय	सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग	द्वितीय श्रेणी
14	श्री बी.के. सिंह	सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	द्वितीय श्रेणी
15	श्री मान सिंह ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि	द्वितीय श्रेणी
16	श्री शरद अग्रवाल	सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग	द्वितीय श्रेणी
17	श्री एस. के. श्रीवास्तव	सहा. आबकारी अधिकारी	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक
18	श्री के.डी. चौरसिया	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी	द्वितीय श्रेणी
19	श्री आर. के. शर्मा	कार्यपालन यंत्री, एम.पी.ई.बी.	प्रथम श्रेणी
20	श्री हरि सिंह ठाकुर	सहायक यंत्री, पी.डब्ल्यू.डी.	द्वितीय श्रेणी
21	श्री सूर्यप्रकाश नामदेव	उप प्रबंधक, वन विकास निगम	द्वितीय श्रेणी
22	श्री मेवाराम अमलतास	उप प्रबंधक, वन विकास निगम	द्वितीय श्रेणी
23	श्री एस.के. वर्मा	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत	द्वितीय श्रेणी
24	श्री भरत सिंह गौर	सहा. वन संरक्षक (टाइगर रिजर्व)	द्वितीय श्रेणी
25	डॉ. एच.एम.एस. बघेल	पशु चिकित्सक	द्वितीय श्रेणी
26	श्री आर.के. सिंह	महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास, उमरिया	प्रथम श्रेणी
27	श्री एस.एन. पाठक	प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	द्वितीय श्रेणी